



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1a0 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16---अगस्त 22, 2003 (श्रावण 25, 1925)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16---AUGUST 22, 2003 (SRAVANA 25, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. ए-19011/4/2001-प्रशा.1---मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21 जुलाई, 2003 के आदेश सं. 17/4/2003-ई.ओ. (एस.एम.-1) के तहत पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में विशेष सचिव, भारत सरकार के पद पर नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप श्री नवीन बी. चावला, भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू. 69) को दिनांक 29 जुलाई, 2003 के अपराह्न से आयोग के कार्यालय में सचिव के उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है ताकि वह पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में अपना नया कार्यभार संभाल सकें।

ए. के. दास
संयुक्त सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 मई 2003

सं. ए-38012/2/03-प्रशा.1---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एस.

सी. मैत्रा को अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 मई, 2003 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवामुक्त करते हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/6/2003-प्रशा.1---स्थापना अधिकारी का कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 9 दिसम्बर, 2002 के का.ज्ञा.सं. 31/7/2002-ई.ओ. (एम.एम. 1) की चक्रानुक्रम नीति के अनुसरण में, के.स.से. के अधिकारी श्री रामप्रसाद की खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से संघ लोक सेवा आयोग में स्थानांतरण होने पर उन्हें 14 मई, 2003 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग में अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/7/2003-प्रशा. 1---राष्ट्रपति, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर अवर सचिव के

पद पर कार्यरत के.स.से. के अधिकारी (सी.एस.एल. सं. 3972) के अधिकारी श्री इंद्र कुमार नरूला को दिनांक 29 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेश होने तक सं. लो. से. आ. के कार्यालय में के. स. से. ग्रेड-I के अवर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री इंद्र कुमार नरूला को तदर्थ नियुक्ति इस शर्त के अध्याधीन है कि उनकी यह नियुक्ति के.स.से. के ग्रेड-I की चयन सूची तैयार होने तक पूर्णतः तदर्थ आधार पर है। तदर्थ नियुक्ति के आधार पर के.स.से. के ग्रेड-I की चयन सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए उनके द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। के.स.से. के ग्रेड-I की चयन सूची में नाम शामिल नहीं होने पर तदर्थ पदोन्नति को वरिष्ठता के दावे के लिए कोई आधार नहीं बनाया जाएगा।

3. इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 मई, 2003 के का.जा.सं. 31/7/2002-ई.ओ. (एम.एम. I) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19014/8/2003-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, के.स.से. के अधिकारी (सी.एस.एल. सं. 3975) श्री एन. पी. शर्मा जो वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर कृषि तथा सहकारिता विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत हैं, को दिनांक 30 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेश होने तक, सं. लो. से. आ. के कार्यालय में के. स. से. ग्रेड-I के अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एन. पी. शर्मा की पूर्णतः तदर्थ नियुक्ति के.स.से. के ग्रेड-I की चयन सूची तैयार होने तक की शर्त के अध्याधीन है। अपनी तदर्थ नियुक्ति के आधार पर के.स.से. ग्रेड-I की चयन सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए उनके द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। अपना नाम के.स.से. के ग्रेड-I की चयन सूची में शामिल होने पर तदर्थ पदोन्नति को वरिष्ठता के दावे के लिए कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा।

इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 मई, 2003 के का. जा.सं. 31/7/2002-ई.ओ. (एम.एम. I) के अनुसरण में जारी किया जाता है।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 3 जुलाई 2003

सं. ए-32013/2/2002-प्रशा.-2--अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग एतद्वारा, संघ लोक सेवा आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनुसंधान, सांख्यिकी तथा विश्लेषण) श्री एस. रामाकृष्णन को दिनांक 29.07.2003 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, संघ लोक सेवा

आयोग के कार्यालय में रु. 12000-375-16500 के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी तथा विश्लेषण) (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'क', राजपत्रित) (अननुसचिवीय) के पद पर नियमित पदोन्नति आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए-38014/3/2002-प्रशा.-2--संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्री सुमेरु चंद, सहायक नियंत्रक (डी.पी.), सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.07.2003 (म.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-38014/4/2002-प्रशा.-2--संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत श्री मोहन लाल शर्मा, सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.07.2003 (म.) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. डीपी/एडी. 5/2003/02968/3/54/90-प्रशा. 5--केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में इस समय प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कार्यरत श्री मेहर सिंह, निरीक्षक, अंडमान और निकोबार पुलिस की सेवाएं, प्रत्यावर्तन पर, 30.05.2003 (अपराह्न) से अंडमान और निकोबार पुलिस को वापस सौंपी जाती हैं।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी. 5/2003/02969/3/24/2003-प्रशा. 5--राष्ट्रपति ने श्री देवाशीष चटर्जी, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, शिलांग को 19.05.2003 पूर्वाह्न से 18.05.2006 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर तकनीकी अधिकारी (लेखा और आयकर) के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी. 5/2003/02970/3/41/91-प्रशा. 5-राष्ट्रपति ने श्री एस. एस. लाकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक को 17.05.2001 से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में 10000-325-15200 रु. के वेतनमान में अपर पुलिस अधीक्षक (समूह 'क' राजपत्रित) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. 2/16/03-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निजी सचिव, श्री डी. डी. लोहानी को प्रधान निजी सचिव के पद पर वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/- में तदर्थ आधार पर दिनांक 06.05.2003 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. एनटी-पीआर.एस-606--आयोग के प्रधान निजी सचिव श्री कृष्ण लाल अरोड़ा सेवानिवृत्ति की आयु पर दिनांक 31.7.2003 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 18/33/97-प्रशा.-II--श्री स्वप्न कुमार मुखर्जी, निरीक्षक (एफ. पी.) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली, की केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कोलकाता में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 24.3.2003 से 23.3.2004 तक आगामी एक वर्ष के लिए अर्थात् (5वें वर्ष के लिए) अथवा नए पदधारी द्वारा पदभार संभालने तक इनमें से जो भी पहले हो, विद्यमान नियमन एवं शर्तों के अनुसार बढ़ाई जाती है। वह 5वें वर्ष में प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे। यह गृह मंत्रालय के दिनांक 21.3.2003 के डायरी सं. 441/पी.एम.-II/बी तथा संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 18.7.2003 के पत्र सं. 3/24(14)/2003-ए.डी.टी.-3 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. डी-एक-II/2001-कार्मिक-I--श्री ए. के. पाण्डे, कमान्डेन्ट, 54 बटालियन, (ईरला-2552) के रि.पु. बल का प्रतिनियुक्ति आधार पर पंजाब पुलिस में चयन हो जाने के फलस्वरूप उन्हें कमान्डेन्ट 54 बटालियन के पद के कार्यभार से दिनांक 14.5.2003 (अपराह्न) से मुक्त किया गया। तदनुसार श्री ए. के. पाण्डे, कमान्डेन्ट की सेवाएं पंजाब सरकार के सुपुर्द की जाती हैं।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. ओ.दो. 3630/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. (मिस) शारदा साहनी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 02.07.2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 103 बटालियन, द्रुत कार्य बल, (के.रि.पु. बल) में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-I)

(महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली-03, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. ई-16015/(2)/1/2002/कार्मिक. 1/29--राष्ट्रपति, के.ओ.सुब के निम्नलिखित सहायक कमान्डेन्टों की 10,000-325-15200/- रुपए के वेतनमान में उप कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से उन्हें इस पर नियुक्त करते हैं :-

अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	उप कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
सर्वश्री रतन कुमार	बीआरपीएल, बोंगाईगाँव	27.05.03 (अपराह्न)
बी. एस. एन. रेड्डी	केकेएनपीपी, कुन्देनकुलम	29.05.03 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ई-15014/1/2003/कार्मिक-II/1417--सक्षम प्राधिकारी सहायक कमान्डेन्टों (कार्यपालक/क.प्र.अ./अग्निशमन) की परिवीक्षा अवधि निम्न

विवरण के अनुसार संतोषजनक ढंग से पूरा होने की घोषणा करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	परिचीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरा करने की तारीख	यूनिट
1.	सी. पी. साही	स. क./कार्य	30.11.2002 (बढ़ी अवधि)	ग्वालियर एयरपोर्ट
2.	एम. आर. ठाकुर	रा. क./क.प्र.अ.	14.02.2003	एन.एल.सी. नवेली
3.	एस. राहा	स.क./अग्नि	01.03.2003	एफ.एस.टी. पी.पी.फरक्का

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के औ सु ब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
[कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा),
पश्चिम बंगाल]

कोलकाता-700001, दिनांक 01 अगस्त 2003

सं. स्था.ले.प. (प्र.)पेंशन/पी. के. एम./204/60/4202--कार्यालय महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री प्रदीप कुमार मल्लिक, लेखा परीक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.07.2003 (अपराह) को अधिवर्षिता प्राप्त कर लेने के कारण सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

बी. के. बनिक
उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)

[प्रमुख महालेखाकार (लेखा परीक्षा) का कार्यालय, उड़ीसा]

भुवनेश्वर, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. स्था. आ.सं. 19 प्रशा. I (लेप)-3-1-1/भाग-V/759--ज्ञापन सं. प्रशा I(लेप)-3-1-1/भाग-V/574, दिनांक 03.07.2003, एवं सं. 590 दिनांक 07.07.2003 द्वारा सूचित का.आ.ग. 369, दिनांक 03.07.2003 एवं 383 दिनांक 07.07.2003 के अनुपालन में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,450-225-11,500/- पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1	2	3
1.	श्री सुरेंद्र नाथ पांडे	04.07.2003 (अपराह)
2.	श्री प्रमोद कुमार पांडे	03.07.2003 (पूर्वाह)

1	2	3
3.	श्री जयदेब महान्ति	04.07.2003 (अपराह)
4.	श्री बसन्त कुमार नायक	03.07.2003 (अपराह)
5.	श्री बिबेकानन्द दास	04.07.2003 (अपराह)
6.	श्री श्रीनिवास सामल	03.07.2003 (अपराह)
7.	श्री प्रफुल्ल कुमार महापात्र	08.07.2003 (अपराह)

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनको पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

यशोवन्त नारायण थाकरे
व. उप महालेखाकार (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. ए-19018/497/80-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर डा. के. एस. मूर्ति, उप निदेशक (रसायन) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर दिनांक 30.06.2003 (अपराह) से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1664/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, चैन्नई में अधीक्षक, श्री एम. मायलस्वामी को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, तृशूर में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 09.07.2003 (पूर्वाह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1665/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद में अधीक्षक, कुमारी पी. इन्दिरा देवी को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 24.06.2003 (अपराह) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1666/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक में अधीक्षक, श्री ए. के. घोष को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 24.06.2003 (अपराह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1667/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, तेजपुर में अधीक्षक, श्री आर. एम. मालाकर को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 01.07.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1668/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर में अधीक्षक, श्री एस. एस. राठौर को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 30.06.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए-19018/1669/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (यांत्रिकी) श्री एम. के. ठाकुर को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (यांत्रिकी) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 25.07.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. ए-19018/1660/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र, कोलकाता में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (विद्युत), श्री अनुतोष बागची को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में शाखा लघु

उद्योग सेवा संस्थान, ईटानगर (अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थान गुवाहाटी) में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (विद्युत) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 24.06.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1665/2003-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर कुमारी पी. इन्दिरा देवी, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, हैदराबाद दिनांक 30.06.2003 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गई हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1666/2003-प्रशा. (राज.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री ए. के. घोष, सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक से दिनांक 30.06.2003 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1671/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, कटक में अधीक्षक, श्रीमती एस. निवेदिता को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 02.07.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

सं. ए-19018/1672/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, कोलकाता में अधीक्षक, श्री स्मृति रंजन दास को लघु उद्योग विकास संगठन के अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उक्त संस्थान में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (सामान्य प्रशासनिक प्रभाग) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 01.07.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700 016, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 4550/B/ए--19011(11-एस.बी.)/01/19ए--तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ.एन.जी.सी.) लिमिटेड में भूवैज्ञानिक के रूप में अपनी नई नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने हेतु महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विधिवत स्वीकृत किए गए त्यागपत्र पर श्री सुमन भट्टाचार्य ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद का कार्यभार 30.04.2003 (अपराह्न) से छोड़ दिया।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 4560/B/ए--19011(1-पी.एस.एस.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री परमिन्दर सिंह सेठी को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 23.06.2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

खान विभाग
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. ए-19011/75/2002-स्था. ए.पी.पी.--श्री आर. राजगोपाल, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.7.2003 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए-19011/258/2002-स्था. ए.पी.पी.--श्री आर. एल. परमार, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.7.2003 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए-19011/342/2002-स्था. ए.पी.पी.--श्री एम. वाई. फाजा, उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त

होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.7.2003 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव
प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
मुंबई-85, दिनांक 31 जुलाई 2003

शुद्धिपत्र

सं. पीडी/8(4)/97-आर-4/674--इस अनुसंधान केन्द्र के द्वारा अधिसूचित दिनांक 6.1.1998 के समसंख्यक अधिसूचना में पन्ना क्रमांक 2 के क्रमांक 39 में दर्शाये गये नाम को संशोधित कर अमरसिंह अण्णासाहेब मनोले के अनुसार पढ़ा जाय।

अँन्टोनी डिसा
नियंत्रक

(कार्मिक प्रभाग)

मुंबई-400085, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. पीडी/12(2)/2003-आर-III/1034--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जे. शैलजा, सहायक, भापअ केन्द्र को दिनांक 12 मई, 2003 (पूर्वाह्न) से 07 जुलाई, 2003 (अपराह्न) तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/12(1)/2003-आर-III/1035--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री शियो बालक राम, सहायक, भापअ केन्द्र को दिनांक 13 दिसंबर, 2002 (पूर्वाह्न) से 09 जुलाई, 2003 (अपराह्न) तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. पीडी/7(2)/2003-आर-III/1046--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एल.सी. मीना, प्रवर श्रेणी लिपिक, प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर को दिनांक 16.07.2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में एन.आर.जी., तारापुर में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/7(2)/2003-आर-III/1047--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री सी. रंगासाई, सहायक कार्मिक अधिकारी को भारी पानी संयंत्र, मणुगुरू से स्थानांतरित होने पर दिनांक 21 जुलाई, 2003 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में उसी पद पर नियुक्त करते हैं।

के.सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(क्रय और भंडार निदेशालय)

मुंबई-400094, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. क्रभनि/भर्ती/10001/2812--परमाणु ऊर्जा विभाग, क्रय और भंडार निदेशालय के निदेशक ने केंद्रीय प्रशासन एकक, क्रभनि, मुंबई के वरिष्ठ लिपिक श्री ए.डी. सालगांवकर को इसी निदेशालय में दिनांक 16.06.2003 (पूर्वाह्न) से 25.07.2003 (अपराह्न) तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

आर. सुंदरराजन
प्रशासनिक अधिकारी-III

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. भा.पा.बो./भ/1(8)--कें.का./2003/603-- भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई के मुख्य कार्यकारी परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई के सहायक श्री जयसुख नानजी मकवाना को भारी पानी बोर्ड (केंद्रीय कार्यालय), मुंबई में रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में दिनांक 11 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में अगले आदेशों तक सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

डी. एस. राव
प्रशासन अधिकारी

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 30 जुलाई 2002

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/848--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के श्री एम. भास्कर प्रसाद, वरिष्ठ लेखा अधिकारी को रु. 10,000-325-15,200 के वेतनमान में दिनांक 24.04.2003 से 12.07.2003 तक उप लेखा नियंत्रक के ग्रेड में स्थानापन्न हैसियत में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/849--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्रीमती पी. जानकी, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 24.04.2003 से 12.07.2003 तक रु. 7,500-250-12000 के वेतनमान

में स्थानापन्न लेखा अधिकारी-II के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-I/04/06/850--मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, कुमार वी. चित्रा, सहायक लेखाकार को दिनांक 24.04.2003 से 12.07.2003 तक रु. 6,500-200-10500 के वेतनमान में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सामान्य सेवा संगठन

कल्पाकम-603102, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. सासेसं/17(27)/2003-भ/पी.1257--निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाकम ने श्रीमती ए. राजेश्वरी, वरिष्ठ लिपिक की 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तारीख 30.06.2003 (पूर्वाह्न) की अवधि से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्ति की है।

डी. नारायणन नायर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

(सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार)

श्रीहरिकोटा-524124, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. एससीएफ/पीजीए/स्थापना-II/15/2003/1228--नियंत्रक, शार केन्द्र, निम्नांकित कर्मचारियों को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में पदोन्नति पर प्रत्येक कर्मचारी के आगे अंकित तारीखों के पूर्वाह्न से स्थानापन्न क्षमता के रूप में आगामी आदेश जारी होने तक सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र शार, श्रीहरिकोटा में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
	श्री/श्रीमती		
01.	एम. ए. वी. प्रसाद	वैयक्तिक सहायक-सी	27.06.2003 (पूर्वाह्न)
02.	डी. सुब्रह्मण्यम	वैयक्तिक सहायक-सी	27.06.2003 (पूर्वाह्न)
03.	बी. प्रभावती	वैयक्तिक सहायक-सी	27.06.2003 (पूर्वाह्न)
04.	सी. एच. वेंकट- रामैय्या	वैयक्तिक सहायक-सी	27.06.2003 (मध्याह्न)

मनोहर एल. बान्ध्यार
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान
कृते नियंत्रक

नागर विमानन महानिदेशालय

नई दिल्ली-3, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. ए-32013/5/2002-स्था-I--राष्ट्रपति जी, श्री चरनदास, उपनिदेशक, उड़नयोग्यता और श्री पी. पी. कदम्बलिथैया, नियंत्रक उड़नयोग्यता को नागर विमानन विभाग में, निदेशक, उड़नयोग्यता के ग्रेड में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 10.7.2003 से 10.11.2003 तक या जब तक यह पद नियमित रूप से भरा जाता है, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्ति करते हैं।

रामधारी

उपनिदेशक प्रशासन
कृते महानिदेशक, नागर विमानन

(केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग)

मुख्य वास्तुक (न. दि. अं.)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जुलाई 2003

सं. 27/54/88-मु. वा.-I--श्री जी. एस. रावत, निजी सचिव, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.6.2003 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

वी. के. तिवारी

मु. वा. (न. दि. अं.) के सम्पर्क अधिकारी

सं. 27/238/88-मु. वा.-I--श्री अरविन्द कंसल, व. वास्तुक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30.6.2003 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

वी. के. तिवारी

मु. वा. (न. दि. अं.) के सम्पर्क अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जैना सदन चिट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/32980/3636--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स जैना सदन चिट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया

गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रैंड्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/109843/3639--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रैंड्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सीनियर मेग्नेटिक्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/23267/3642--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सीनियर मेग्नेटिक्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैलो ऑफिस काम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/105756/3645--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स हैलो ऑफिस काम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी

सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एस.सी.आई. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/88794/3648--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस.सी.आई. बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यू इण्डिया प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/87454/3651--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स न्यू इण्डिया प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जे. एस. एन. प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/80943/3654--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जे. एस. एन. प्रिन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आल्टर ईगो कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 560(3)/05/12762/3657--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स आल्टर ईगो कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न

किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सपिक टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/76547/3664--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सपिक टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एशियन टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/100232/3668--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एशियन टेलीकॉम प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डब्ल्यू. एफ. इस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/75775/3671--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स डब्ल्यू. एफ. इस्टेम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमीता प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/87116/3674--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अमीता प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तास एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/05/32039/3677--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स तास एग्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स राजलक्ष्मी फाईनेन्स एण्ड कैपिटल लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/67627/3680--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स राजलक्ष्मी फाईनेन्स एण्ड कैपिटल लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुपर फ्लैक्स केबल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/96706/3683--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सुपर फ्लैक्स केबल्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड

का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरनीत इस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/84545/3692--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स हरनीत इस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हरनीत फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/85705/एस.ई.एस./3695--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स हरनीत फार्म्स एण्ड रिसोर्ट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रेम्बो सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/75551/3728--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स रेम्बो सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विम्पेक्स एग्री लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/66671/3731--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विम्पेक्स एग्री लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रहलादराम सतनारायण एण्ड
सन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/69653/3735--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स प्रहलादराम सतनारायण एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गुलशन हैण्डलूम प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/92116/3738--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुलशन हैण्डलूम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अतिशे प्रोपर्टीज प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/092175/3741--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि मैसर्स अतिशे प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वन वन फिल्म प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/105298/3744--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स वन वन फिल्म प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बिग बी. इम्पेक्स प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/81126/3747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बिग बी. इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किमपेक्स इण्डिया प्राईवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/76705/56/एस.ई.एस./3769--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स किमपेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईबजाज काम लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. 560(3)/55/108735/63/एस.ई.एस./3778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स ईबजाज काम लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विल टेल.काम प्राईवेट
लिमिटेड
के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 अगस्त 2003

सं. 560(3)/55/107382/3783--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विल टेल.काम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दीपक फोर्जिंग्स प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. एल.सी./560(3)/11349--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की समाप्ति पर मैसर्स दीपक फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स माया लेमिनेट्स प्राईवेट
लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. एल.सी./560(3)/15521--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की समाप्ति पर मैसर्स माया लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के सम्बन्ध में।

कोलकाता-700020, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. टी.एस./560/मास्टर फाईल-2--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी। यह अधिसूचना विभाग के परिपत्र सं. 1/5/2000-सी.एल. 5, दिनांक 20 सितम्बर, 2000 के अनुसरण में जारी की गई।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम और पता
1	2	3
1.	37776	मैसर्स पी. डी. इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	42161	मैसर्स नीलांचल ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	58575	मैसर्स कालीमाता स्टील फाउन्ड्री प्राईवेट लिमिटेड
4.	51648	मैसर्स ए. बी. लालकर मैरिन प्राईवेट लिमिटेड
5.	36971	मैसर्स जे. जी. प्रोमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	57513	मैसर्स दिगन्त क्लीनिक एण्ड नर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	41334	मैसर्स एस. डी. जी. मेट प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड
8.	30450	मैसर्स रॉयल ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	59286	मैसर्स अशोका मर्चेन्ट्स एण्ड फिस्कल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	31980	मैसर्स कावेरी इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	55610	मैसर्स माइलस्टोन डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
12.	54104	मैसर्स बाचु केमिक्युप प्राईवेट लिमिटेड
13.	59620	मैसर्स राजगर सेविंग्स कम्पनी लिमिटेड
14.	31912	मैसर्स अनुअपेक्स (एजेन्सीज) प्राईवेट लिमिटेड
15.	56093	मैसर्स माइक्रॉन इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
16.	31973	मैसर्स पम्पा प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
17.	47284	मैसर्स मैपल शू इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
18.	50931	मैसर्स प्रोग्रेसिव फोटो सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
19.	41960	मैसर्स जनरल सिंथेटिक्स कारपोरेशन लिमिटेड
20.	44419	मैसर्स निहारिका कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	45301	मैसर्स पालसन्स मार्केटिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
22.	38990	मैसर्स देवी एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
23.	38991	मैसर्स अन्नपूर्णा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	38992	मैसर्स एम्के डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	48970	मैसर्स आरटू एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
26.	3933	
42.		मैसर्स विपुल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	53344	मैसर्स वाइल्ड वुड रिट्रीट प्राईवेट लिमिटेड
28.	31921	मैसर्स सुरेका वाणिज्य उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
29.	53498	मैसर्स प्रफुल्ल बासु एण्ड सन्स क्रेडिट इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
30.	33853	मैसर्स लकी कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
31.	43156	मैसर्स पैन्थर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	42657	मैसर्स बलाका हाउसिंग कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
33.	44963	मैसर्स सेकसु इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
34.	47580	मैसर्स कल्पना कम्बाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	38497	मैसर्स एम.सी.सी. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	71786	मैसर्स एच.एम.एस. एक्जुआ प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	9941	मैसर्स साउथ बैजना कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
38.	9942	मैसर्स नार्थ बैजना कोल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
39.	18766	मैसर्स फ्लावर एण्ड फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड
40.	63399	मैसर्स बाभनान एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
41.	63403	मैसर्स बलरामपुर एग्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	40836	मैसर्स अमरापल्ली हाउसिंग प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड

जी. मुखोपाध्याय
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. कं.सं. 560/3/03-04--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	25788	मैसर्स डेर्माजेन फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	26754	मैसर्स फातिमा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	26753	मैसर्स कोर्सा इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
4.	25539	मैसर्स एल्लोवेदिक नेचुरल प्राईवेट लिमिटेड
5.	23660	मैसर्स पी. एस. जे. बिर्नेस सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड

टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यू. टी. एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

बेंगलूर-34, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. कं.सं./एस.टी.ए./एन.के.आर./7011/560(3)/2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो मैसर्स यू. टी. एक्सपोर्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उस दिन से कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. 'ए. एम. पी. रत्नसामी
कम्पनियों के उप रजिस्ट्रार
कर्नाटक

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110 011, the 29th July 2003

No. A-19011/4/2001-Admn.I.—On his appointment as Special Secretary to the Government of India, Ministry of Environment & Forests vide Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training Order No. 17/4/2003-EO(SM.I) dated 21st July 2003, Shri Navin B. Chawla, IAS (AGMU : 69) is relieved of his duties as Secretary in the Commission's Office w.e.f. the afternoon of 29th July 2003 so as to enable him to take up his new assignment in the Ministry of Environment & Forests.

A. K. DASH
Joint Secy. (Admn.)

Union Public Service Commission

New Delhi, the 30th May 2003

No. A-38012/2/03-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri S.C. Maitra, CSS, working as Under Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st May 2003.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

Union Public Service Commission

No. A-19014/6/2003-Admn.I.—Consequent upon his transfer from Department of Food & Public Distribution to the Union Public Service Commission in pursuance of the Rotation Policy vide Office of the Establishment Officer, Department of Personnel & Training OM No. 31/7/2002-EO(MM.I) dated 9th December, 2002, Shri Ram Prasad, an Officer of CSS, has been appointed as Under Secretary, UPSC w.e.f. the forenoon of 14th May, 2003 until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

Union Public Service Commission

No. A-19014/7/2003-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Inder Kumar Narula, a CSS Officer (CSL No. 3972) holding the post of Under Secretary on personal upgradation basis in the Ministry of Health & Family Welfare, as Under Secretary, Grade I of CSS on ad-hoc basis in the Office of UPSC w.e.f. the forenoon of 29th May, 2003 until further orders.

2. The ad-hoc appointment of Shri I. K. Narula is subject to the condition that the appointment is purely on ad-hoc basis pending preparation of Select List of Grade-I of CSS. He shall have no claim for inclusion of his name in the Select List of Grade I of CSS on the basis of his ad-hoc

appointment. The ad-hoc promotion shall not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List of Grade I of CSS.

3. This issues in pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 31/7/2002-EO(MM.I) dated 6th May, 2003.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

Union Public Service Commission

No. A-19014/8/2003-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri N. P. Sharma, a CSS Officer (CSL No. 3975) holding the post of Under Secretary on personal upgradation basis in the Department of Agriculture & Co-operation, as Under Secretary, Grade I of CSS on ad-hoc basis in the Office of UPSC w.e.f. the forenoon of 30th May, 2003 until further orders.

2. The ad-hoc appointment of Shri N.P. Sharma is subject to the condition that the appointment is purely on ad-hoc basis pending preparation of Select List of Grade I of CSS. He shall have no claim for inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS on the basis of his ad-hoc appointment. The ad-hoc promotion shall not be used to claim seniority as and when his name is included in the Select List of Grade I of CSS.

3. This issues in pursuance of Department of Personnel & Training OM No. 31/7/2002-EO(MM.I) dated 6th May, 2003.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

Union Public Service Commission

The 30th July 2003

No. A.32013/2/2002-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri S. Ramakrishnan, a regular Senior Research Officer (Research, Statistics & Analysis) in the office of Union Public Service Commission to the post of Joint Director (Research, Statistics & Analysis) (General Central Service; Group 'A' Gazetted, Non-ministerial) in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- in the Commissions' office on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 29.07.2003, until further orders.

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)

for Chairman

Union Public Service Commission

The 31st July 2003

No. A-38014/3/2003-Admn.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Mr. Sumer Chand,

Asstt. Controller (DP) in the office of the Union Public Service Commission, has retired from Government service with effect from 31.07.2003 (A.N.).

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

No. A-38014/4/2003-Admn.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Mr. Mohan Lal Sharma, Asstt. Library Information Officer in the office of the Union Public Service Commission, has retired from Government service with effect from 31.07.2003 (A.N.).

M. NIRMALA RAO
Under Secy. (Admn.)
Union Public Service Commission

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 24th July 2003

No. DPAD-52002/02968/3/54/90-AD.V.—Services of Shri Mehar Singh, Inspector, Andaman & Nicobar Police presently working as Dy. Supdt. of Police in the CBI on deputation basis are placed back at the disposal of Andaman & Nicobar Police w.e.f. 30.05.2003(AN) on repatriation.

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Estt.), CBI

No. DPAD-52002/02969/3/24/2003-AD.V.—The President is pleased to, appoint Shri Debasish Chatterjee, Superintendent, Central Excise Hqrs., Shillong as Technical Officer (Accounts & Income Tax) in Central Bureau of Investigation on deputation basis w.e.f. the forenoon of 19.05.2003 for a period of three years up to 18.05.2006 or until further orders whichever is earlier.

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Estt.), CBI

No. DPAD-52003/02970/3/41/91-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri S.S. Lakra, Deputy Supdt. of Police as Addl. SP(Group 'A'/Gazetted) in the Central Bureau of Investigation, Special Police Establishment with effect from 17.05.2001 in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/

S. D. BAIJAL
Admn. Officer (Estt.), CBI

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 29th July 2003

No. 2/16/03-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri D. D. Lohani Private Secretary in the Commission as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- for a period of three months

w.e.f. 06.05.2003 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

MANGE LAL
Deputy Secretary (Admn.)

The 31st July 2003

No. NT-PRS-606.—On attaining the age of superannuation, Shri Krishan Lal Arora, PPS in the Commission shall retire from government service w.e.f. 31.07.2003 (A/N).

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 31st July 2003

No. 18/33/97-Adm. II.—The period of deputation of Shri Swapan Kumar Mukherjee, Inspector (FP) of National Crime Records Bureau New Delhi on the post of Deputy Superintendent of Police in the CDTs, Kolkata is extended for a further period of one year (i.e. 5th year) with effect from 24.3.2003 to 23.3.2004 or till the time a new incumbent joins duty, whichever is earlier on the existing terms and conditions. He will not be entitled to draw any deputation allowance during the 5th year of his deputation period. This issues with the approval of the Ministry Home Affairs vide their Dy. No. 441/PM-II/B dated 21.3.2003 and the UPSC vide their letter No.3/24(14)2003-ADT-3 dated 18.7.2003.

A. K. SOOD
Asstt. Dir. (Adm.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 28th July 2003

No. D.I-II/2001-Pers.I.—Consequent on selection of Shri A.K. Pandey, Commandant CRPF (IRLA : 2552) in Punjab Police on deputation basis, Shri A.K. Pandey relinquished charge of Commandant 54 bn CRPF w.e.f. 14.05.2003 AN. the services of Shri A.K. Pandey, Commandant is accordingly placed at the disposal of Govt. of Punjab.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers-I)

The 29th July, 2003

No. O. II.3630/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Sharda Sahani as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 02.07.2003 till further order. She is posted to 103 BN, RAF, CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers.I)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-03, the 28th July 2003

No. E-16015/(2)/1/2002/PERS. I/29—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandant/Exe on regular promotion to the rank of Deputy Commandant in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the dates noted against each:—

Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Deputy Commandant on regular basis
Ratan Kumar	BRPL Bongaigaon	27.05.2003 (AN)
B.S.N. Reddy	KKNPP Kudankulam	29.05.2003 (FN)

Sd/- ILLIGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 30th July 2003

No. E-15014/1/2003/Pers.II/1417—The competent authority is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of the Assistant Commandants (Exe/JAO/Fire) as per details given below:—

Name of officer	Rank	Probation period completed satisfactorily on	Unit
(S/Shri)			
C.P. Shahi	AC/Exe	30.11.2002 (Extended period)	Gwalior Airport
M.R. Thakur	AC/JAO	14.02.2003	NLC Neyveli
S. Raha	AC/Fire	01.03.2003	FSTPP Farakka

Sd/- ILLIGIBLE
Dir. Gen./CISF

**INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
ACCOUNTANT GENERAL (LOCAL BODIES AUDIT),
WEST BENGAL
(LOCAL AUDIT DEPARTMENT)**

Kolkata-700001, the 1st August 2003

No. LA/Admn/Pen/PKM/204/60/4202—Shri Pradip Kumar Mallik, Audit Officer of the Office of Accountant General (Local Bodies Audit), West Bengal, Local Audit Department, retired on superannuation with effect from 31.07.2003 (A/N).

B.K. BANIK
Dy. Acct. Gen. (Local Bodies),
West Bengal

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT)-I, ORISSA**

Bhubaneswar, the 28th July 2003

No. Admn-I(Au)-3-1-1/Vol. V/759 EO. No: 19—In pursuance of this Office Order No. 369 dated 03.07.2003 and 383 dated 07.07.2003 communicated vide Memo No. Admn-I (Au)-3-1-1/Vol. V/574, Dt. : 03.07.2003 and 590 Dt. 7.7.2003, the following Section Officers on their promotion, have assumed charge as Assistant Audit officer in the Scale of Pay of Rs. 7450-225-11500/- with effect from the date noted against them:—

Sl.	Name of the Officers	Date of taking over Charge as A.A.O.
	S/Shri	
1.	Surendra Nath Padhi	04.07.2003 (FN)
2.	Pramod Kumar Padhi	03.07.2003 (A/N)
3.	Jayadeb Mohanty	04.07.2003 (F/N)
4.	Basanta Kumar Nayak	03.07.2003 (F/N)
5.	Bibekananda Das	04.07.2003 (F/N)
6.	Srinibas Samal	03.07.2003 (F/N)
7.	Prafulla Kumar Mohapatra	08.07.2003 (F/N)

Their *inter-se*-seniority in the cadre will be fixed according to rules/roster points.

Y. N. THAKARE
Sr. Dy. Acct Gen./Admn.

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)**

New Delhi, the 29th July 2003

No. A-19018/497/80-Admn(G).—On attaining the age of superannuation, Dr. K.S. Murty, Deputy Director (Chemical), Small Industries Service Institute, Bangalore under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.6.2003.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1664/2003-Admn (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri M. Mylswamy, Superintendent, Small Industries Service Institute, Chennai as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in small Industries Service Institute, Thrissur with effect from the forenoon of 09.07.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1665/2003-Admn(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Kumari P. Indira Devi, Superintendent, Small Industries Service Institute, Hyderabad as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the afternoon of 24.06.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1666/2003-Admn (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri A.K. Ghosh, Superintendent, Small Industries Service Institute, Cuttack as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the afternoon of 24.06.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1667/2003-Admn (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri R.M. Malakar, Superintendent, Branch Small Industries Service Institute, Tezpur as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the forenoon of 01.07.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1668/2003-Admn (G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri S.S. Rathore, Superintendent, Small Industries Service Institute, Indore as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the forenoon of 30.06.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

The 30th July 2003

No. A-19018/1669/2003-Admn.(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri M.K. Thakur, Small Industry Promotion Officer (Mechanical), Small Industries Service Institute, New Delhi as Assistant Director (Grade II) (Mechanical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Office of the

Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi with effect from the forenoon of 25.07.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

The 1st August 2003

No. A-19018/1660/2003-Admr.(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri Anutosh Bagchi, Small Industry Promotion Officer (Electrical), Regional Testing Centre, Kolkata as Assistant Director (Grade II) (Electrical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in Branch Small Industries Service Institute, Itanagar (under Small Industries Service Institute, Guwahati) with effect from the forenoon of 24.06.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1665/2003-Admn.(G).—On attaining the age of superannuation, Kum. P. Indira Devi, Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Hyderabad under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.06.2003.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1666/2003-Admn.(G).—On attaining the age of superannuation, Shri A.K. Ghosh, Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division), Small Industries Service Institute, Cuttack under Small Industry Development Organisation retired from Government service on the afternoon of 30.06.2003.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1671/2003-Admn.(G).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Smt. S. Nivedita, Superintendent, Small Industries Service Institute, Hubli as Assistant Director (Grade II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the forenoon of 02.07.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

No. A-19018/1672/2003-Admn(G.).—The Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint

Shri Smriti Ranjan Das, Superintendent, Small Industries Service Institute, Kolkata as Assistant Director (Grade-II) (General Administrative Division) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 in the same Institute with effect from the forenoon of 01.07.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI
Dy. Dir. (Admn.)

**KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)**

Kolkata-700 016, the 28th July 2003

No. 4550/B/A-19011(11-SB)/01/19A.—Shri Suman Bhattacharya relinquished the charge of the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India on resignation, duly accepted by the Director General, Geological Survey of India, with effect from 30.04.2003(AN) to take up his new assignment as Geologist in ONGC Limited.

S.K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General
Geological Survey of India

No. 4560/B./A-19011(1-PSS)/03/19A.—The President is pleased to appoint Shri Parminder Singh Sethi to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23.06.2003 until further orders.

S.K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General
Geological Survey of India

**(DEPARTMENT OF MINES)
(INDIAN BUREAU OF MINES)**

Nagpur, the 1st August 2003

No. A-19011/180/2002-Estt./App.—“Shri R. Rajgopal, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has relinquished Charge on the afternoon of 31.07.2003 on attaining the age of superannuation.

S.K. BATAV
Administrative Officer
Indian Bureau of Mines

No. 19011/258/2002-Estt. App.—“Shri R.L. Parmar, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has

relinquished charge on the afternoon of 31.07.2003 on attaining the age of superannuation.

S.K. BATAV
Administrative Officer
Indian Bureau of Mines

No. A-19011/342/2002-Estt.App.—Shri M.Y. Faza, Deputy Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the afternoon of 31.07.2003 on attaining the age of superannuation.

S.K. BATAV
Administrative Officer
Indian Bureau of Mines

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 31st July 2003

CORRIGENDUM

No. PD/8(4)/97/R-IV/674.—In partial modification of this Research Centre notification issued under Ref. No. PD/8(4)/97-R-IV/10 dated 6.1.1998, the name at Sr. No. 39 in page 2 is amended to read as “Amarsinh Annasaheb Manole”.

ANTHONY DE SA
Controller

(PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400 085, the 29th July 2003

No. PD/12(2)/2003-R-III/1034.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. J. Shailaja, Assistant, B.A.R.C. as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 12.05.2003(FN) to 07.07.2003(AN).

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/12(2)/2003-R-III/1035.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sheo Batak Ram, Assistant, B.A.R.C. as Assistant Personnel Officer in this Research Centre on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, with effect from 13.12.2002 (FN) to 09.07.2003 (AN).

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

The 31st July 2003

No. PD/7(2)/2003-R-III/1046.—Controller, BARC appoints Shri L. C. Meena, Upper Division Clerk, CAT, Indore to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, at NRG, BARC, Tarapur w.e.f. the forenoon of 16.07.2003 on regular basis until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/7(2)/2003-R-III/1047.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri C. Rangasai, Asstt. Personnel Officer, Heavy Water Plant, Manuguru, on transfer in the same capacity, in this Research Centre (in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500) with effect from 21.07.2003 (FN) until further orders.

K.C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES)

Mumbai-400 094, the 29th July 2003

No. DPS/10001/Rectt./2812.—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy has appointed Shri A.D. Salgaonkar, Sr. Clerk as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis in the same Directorate from 16.06.2003(FN) to 25.07.2003 (AN).

R. SUNDARARAJAN
Administrative Officer-III

(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai-400 094, the 28th July 2003

No. HWB/R/1(8)-CO/2003/603.—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Jaysukh Nanji Makwana, Assistant, DAE Secretariat, Mumbai as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 in Heavy Water Board (Central Office), Mumbai with effect from the forenoon of July 11, 2003 until further orders.

D. S. RAO
Administrative Officer

(NUCLEAR FUEL COMPLEX)

Hyderabad-500 062, the 30th July 2003

No. NFC/PAR-1/04/06/848.—The President is pleased to appoint Shri M. Bhaskara Prasad, Senior Accounts Officer of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Deputy Controller of Accounts in the scale of pay of

Rs. 10,000-325-15,200 with effect from 24.04.2003 to 12.07.2003, in an officiating capacity on ad-hoc basis.

G. KOTESHWAR RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-1/04/06/849.—Chief Executive, NFC appoints Smt. P. Janaki, Asstt. Accounts Officer to officiate as Accounts Officer-II on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000, with effect from 24.04.2003 to 12.07.2003.

G. KOTESHWAR RAO
Administrative Officer

No. NFC/PAR-1/04/06/850.—Chief Executive, NFC appoints Kum. V. Chitra, AA to officiate as Asstt. Accounts Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, w.e.f. 24.04.2003 to 12.07.2003.

G. KOTESHWAR RAO
Administrative Officer

GENERAL SERVICES ORGANISATION

Kalpakkam-603 102, the 28th July 2003

No. GSO/17(27)/2003-R/P. 1257.—Director, General Services Organisation, Kalpakkam appoints Smt. A. Rajeswari, Senior Clerk as Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 for the period from 30.06.2003 (FN) until further orders.

D. NARAYANAN NAIR
Chief Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

(SATISH DHAWAN SPACE CENTRE, SHAR)

Sriharikota-524 124, the 10th July 2003

SCF/PGA/Estt.-II/15/03/1228.—The Controller, SDSC SHAR is pleased to appoint on promotion the following personnel to the post indicated against each in the grade of Rs. 6500-200-10500 in an Officiating capacity with effect from the dates mentioned against each and until further orders at SDSC SHAR, Sriharikota.

Name S/Sri/Smt.	Designation	Date of Appointment
M.A.V. Prasad	Personal Assistant-C	27.06.2003 FN.
D. Subrahmanyam	Personal Assistant-C	27.06.2003 FN.

1	2	3
B. Prabhavathi Devi	Personal Assistant-C	27.06.2003 F.N.
Ch. Venkataramaiah	Personal Assistant-C	27.06.2003 A.N.
MANOHAR L. VANNIAR Sr. Administrative Officer Head of Office For Controller		

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 10th July 2003

No. A.32013/5/2002-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Charan Dass, Deputy Director of Airworthiness and Shri P. P. Kadambalithaya, Controller of Airworthiness to the grade of Director of Airworthiness in the scale of pay of Rs. 14300-400-18300 in the Civil Aviation Department on an ad-hoc basis with effect from 10.07.2003 to 10.11.2003 or till the post is filled up on a regular basis, whichever is earlier.

RAM DHARI

Dy. Director of Administration
for Director General of Civil Aviation

(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT)

O/O CHIEF ARCHITECT (NDR)

New Delhi, the 1st July 2003

No. 27/54/88-C.A.1./1355.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri G. S. Rawat, P.S., Central Public Works Department, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon of 30.06.2003 (AN).

V. K. TIWARI

Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

No. 27/238/88-C.A.1./1356.—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Arvind Kansal, Senior Architect, Central Public Works Department, New Delhi retires from Government service with effect from the afternoon of 30.06.2003 (AN).

V. K. TIWARI

Liaison Officer to Chief Architect (NDR)

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jaina Sadan Chits Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. 560(3)/55/32980/3636.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Jaina Sadan Chits Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Friends Infotech Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. 560(3)/55/109843/3639.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Friends Infotech Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Senior Magnetics Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/23267/3642.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Senior Magnetics Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hello Office. Com. Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. 560(3)/55/105756/3645.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Hello Office. Com. Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI

Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SCI Builders & Developers Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/88794/3648.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SCI Builders & Developers Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New India Processors Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/87454/3651.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. New India Processors Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. JSN Prints Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/80943/3654.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. JSN Prints Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alter Ego Chemicals Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. 560(3)/05/127629/3657.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Alter Ego Chemicals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Spic Tours & Travels Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. 560(3)/55/76547/3664.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Spic Tours & Travels Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asian Telecom Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/100232/3668.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asian Telecom Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. WF Estates Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/75775/3671.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. WF Estates Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ameeta Properties Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/87116/3674.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ameeta Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Tass Agri Tech. Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/32039/3677.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Tass Agri Tech. Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rajlakshmi Finance & Capital Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/67627/3680.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rajlakshmi Finance & Capital Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Superflex Cables India Private Limited.

New Delhi-110 003, the 28th July 2003

No. FTS/560(5)/55/96706/3683.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of M/s. Superflex Cables India Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harneet Estates & Developers Private Limited.

New Delhi-110 003, the 29th July 2003

No. 560(3)/55/84545/3692.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Harneet Estates & Developers Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Harneet Farms & Resorts Limited.

New Delhi-110 003, the 29th July 2003

No. 560(3)/55/85705/SES/3695.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Harneet Farms & Resorts Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rambo Securities Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/75551/SES/3728.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Rambo Securities Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vimtex Agro Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. FTS/560(5)/55/66671/3731.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of M/s. Vimtex Agro Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prahaladrai Satnarain & Sons Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/69653/3735.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Prahaladrai Satnarain & Sons Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gulshan Handloom Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/92116/3738.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Gulshan Handloom Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Atishay Properties Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. FTS/560(5)55/092175/3741.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the name of M/s. Atishay Properties Private Limited has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. One One Film Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/105298/3744.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. One One Film Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Big B Impex Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/81126/3747.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Big B Impex Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kimpex India Private Limited.

New Delhi-110 003, the 31st July 2003

No. 560(3)/55/76705/56/SES/3769.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Kimpex India Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. E. Bajaj Com. Limited.

New Delhi-110 003, the 1st August 2003

No. 560(3)/55/108735/63/SES/3778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. E. Bajaj Com. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Wil Tell Com. Limited.

New Delhi-110 003, the 4th August 2003

No. 560(3)/55/107382/3783.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Wil Tell Com. Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deepak Forgings Private Limited.

Kanpur-208001, the 1st August 2003

No. 560(3)/LC/11349/7611.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Deepak Forgings Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Maya Laminates Private Limited.

Kanpur-208001, the 1st August 2003

No. 560(3)/LC/15521/7613.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Maya Laminates Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Calcutta-700 020, the 28th July 2003

No. TS/560/Master File-2.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless any objection is received from any person will be struck off the Register and the said company will be dissolved:—

Company No.	Name & Address of the Company
1	2
37776	M/s. Pee Dee Engineering Pvt. Ltd.
42161	M/s. Neelachal Trading Co. Pvt. Ltd.
58575	M/s. Kalimata Steel Foundry Pvt. Ltd.
51648	M/s. A.B. Lalkar Marine Pvt. Ltd.
36971	M/s. J.G. Promoters Pvt. Ltd.
57513	M/s. Diganta Clinic & Nursing Pvt. Ltd.
41334	M/s. S.D.G. Met Project Pvt. Ltd.
30450	M/s. Royal Travels Pvt. Ltd.
59286	M/s. Ashoka Merchants & Fiscal Exporters Pvt. Ltd.
31980	M/s. Kaveri Estates Pvt. Ltd.
55610	M/s. Milestone Diagnostic & Research Centre Pvt. Ltd.
54104	M/s. Bachu Chemiquip Pvt. Ltd.
59620	M/s. Rajgar Savings Company Ltd.
31912	M/s. Anupex (Agencies) Pvt. Ltd.
56093	M/s. Micron Engineering Pvt. Ltd.
31973	M/s. Pampa Properties & Investment Pvt. Ltd.
47284	M/s. Maple Shoe Industries Pvt. Ltd.
50931	M/s. Progressive Photo Setter Pvt. Ltd.
41960	M/s. General Synthetics Corporation Ltd.
44419	M/s. Niharika Constructions Pvt. Ltd.
45301	M/s. Palsons Marketing Agency Pvt. Ltd.
38990	M/s. Devi Agencies Pvt. Ltd.
38991	M/s. Annapurna Distributors Pvt. Ltd.
38992	M/s. Emkay Distributors Pvt. Ltd.
48970	M/s. Artoo Exports (India) Pvt. Ltd.
39342	M/s. Vipul Electronics Pvt. Ltd.
53344	M/s. Wild Wood Retreat Pvt. Ltd.
31921	M/s. Sureka Banijya Udyog Pvt. Ltd.

1	2
53498	M/s. Prafulla Basu & Sons Credit Investment Pvt. Ltd.
33853	M/s. Lucky Construction Pvt. Ltd.
43156	M/s. Panther Travels Pvt. Ltd.
42657	M/s. Balaka Housing Consultancy Pvt. Ltd.
44963	M/s. Ceksui Engineering Pvt. Ltd.
47580	M/s. Kalpana Combines Pvt. Ltd.
38497	M/s. MCC Exports Pvt. Ltd.
71786	M/s. HMS Aqua Products Pvt. Ltd.
9941	M/s. South Badjna Coal Company Pvt. Ltd.
9942	M/s. North Badjna Coal Company Pvt. Ltd.
18766	M/s. flower & Flora Pvt. Ltd.
63399	M/s. Babhnar Agro Products Pvt. Ltd.
63403	M/s. Balrampur Agro Products Pvt. Ltd.
40836	M/s. Amrapalli Housing Properties Pvt. Ltd.

G. MUKHOPADHYAY
Dy. Registrar of Companies,
West Bengal.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Bangalore-560034, the 16th July 2003

No. JTA/PS/560(3)/03-04—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

Company No.	Name of the Company
25788	Dermagen Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
26754	Fathima Travels Pvt. Ltd.
26753	Corosa Information Technologies Pvt. Ltd.
25339	Allovedic Naturals Pvt. Ltd.
23660	P.S.J. Business Solutions Pvt. Ltd.

J.S.D. PRASADA RAO
Asst. Registrar of Companies,
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. U.T. Exports (India) Private Limited

Bangalore-560034, the 1st August 2003

No. STA/NKR/7011/560(3)/2003.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of Three Months from the date hereof the name of the company U.T. Exports (India) Private Limited unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

B.A.M.P. RATHNASAMI
Dy. Registrar of Companies (Prosecution)
(Ex-Officio Company Prosecutor.)
Karnataka